



### सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का 2022 का सड़कें साफ करने का प्रोग्राम शुरू हो गया है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (11 मई, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने अपना 2022 का सड़कें साफ करने का प्रोग्राम (स्ट्रीट स्वीपिंग प्रोग्राम) शुरू कर दिया है। रिहायश वाली सड़कों पर सफाई की शुरुआत करने से पहले, इंडस्ट्रियल और आर्टिरियल सड़कों की सफाई शुरू की जाएगी।

सड़कों और सीवरों को साफ रखने के लिए वसंत के दौरान, सिटी की सड़कों से रेत और मलबा साफ किया जाता है। यह मलबे को, स्टॉर्म सीवरों में जाने से रोकता है और ड्राइवरों तथा पैदल चलने वालों के लिए सुरक्षित और साफ सड़कें प्रदान करता है। वसंत के सफाई प्रोग्राम (स्प्रिंग स्वीपिंग प्रोग्राम) में शामिल है:

- सिटी के स्वामित्व वाली सभी सड़कों पर लुक की ऊपरी परत, पुलों, कैच बेसिनो और गटरों सहित
- सख्त-सतह वाले बुलेवार्ड और बीच के क्षेत्र
- वे साइडवॉक्स और पगडंडियां, जिनसे सर्दी के दौरान सिटी के द्वारा बर्फ हटाई गई थी
- सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के रेक्रिएशन सेंटर्स और सिटी की अन्य फैसिलिटीज में पार्किंग लॉट्स
- बिना कर्ब्स वाली कंट्री रोड्स को धोया और/या साफ किया जाता है, जैसे आवश्यक हो
- साइडवॉक की सफाई
- नमक के बॉक्सेज और स्नो फेंसिंग हटाना
- बुलेवार्ड को उच्च प्रेशर से धोना
- ज़मीन के घास से ढके क्षेत्र की मुरम्मत
- सिटी के पार्क्स डिपार्टमेंट (Parks Department) के साथ साझेदारी में, कूड़ा लेकर जाना

वसंत के सफाई प्रोग्राम के दौरान, निवासियों को याद दिलाया जाता है कि:

- रिहायशी सड़कों पर, सोमवार से शुक्रवार, सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वाहन पार्क न करें
- सुनिश्चित करें कि ड्राइववेज पर पार्क किए वाहन, सड़क की ओर बाहर निकले हुए नहीं हैं
- कूड़ा एकत्र करने वाले दिनों को, कूड़े के कंटेनर और रिसाइकलिंग बॉक्सेज को सड़क से दूर रखें
- बास्केटबॉल और हाकी नेट्स को सड़क से दूर और कर्ब से काफी पीछे रखें
- स्थिति को समझें। जब सड़क की सफाई हो रही हो, तो थोड़ा शोर हो सकता है और मिट्टी उड़ सकती है
- धैर्य बनाए रखें क्योंकि ठंडा और बारिश वाला मौसम, सड़क साफ करने वालों को काम करने से रोकता है। प्रोग्राम का संचालन करने के लिए, तापमान लगातार ज़ीरो से अधिक होना चाहिए

वसंत के सफाई प्रोग्राम के बारे में अधिक जानकारी के लिए और स्प्रिंग स्ट्रीट स्वीपिंग मानचित्र के लिए, [Brampton.ca](http://Brampton.ca) पर जाएं।

-30-

**मीडिया संपर्क**

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया

[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)